

घरेलू आग के चेतावनी की घण्टी (smoke alarm) की जाँच-तालिका

Fact Sheet 11 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Hindi

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

यथार्थ

घर में लगी आग का धुआँ जहरीला होता है। केवल शीघ्र चेतावनी से ही आपके परिवार को, कमरे के धुएँ से बचाव का समय मिल सकता है। साथ ही, अगर आप सोये हुए हैं तो आपको आग से उत्पन्न धुएँ की गन्ध नहीं आयेगी तथा वास्तविकता में इसके प्रभाव से आप गहरी नींद में चले जायेंगे। आग के खतरे की घण्टी की चेतावनी ही आपको जल्दी सचेत कर सकती है तथा इसको लगाना आपके लिए आपकी घर की सुरक्षा योजना का प्रथम महत्वपूर्ण कदम है।

किस प्रकार की घरेलू आग के चेतावनी की घण्टियाँ उपलब्ध हैं?

कड़े तार वाली (जो मैन पावर से जुड़ी हुई तथा जो बिजली चले जाने पर बैटरी से भी चल सकती है) अथवा केवल बैटरी से चलने वाली घण्टियाँ उपलब्ध हैं। कुछ अन्य प्रकार रसोई, कैरावान तथा विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए हैं जैसेकि जो लोग सुन नहीं सकते। कुछ प्रकार के ऐसे अलार्म भी उपलब्ध हैं जिनमें आपातकाल में बत्ती भी साथ जलती है।

जो भी प्रकार आप चुने, हम आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की सलाह देते हैं:

- प्रत्येक घर अथवा यूनिट में सही संख्या में कार्यशील, आग के खतरे की घण्टी लगी होनी चाहिए।
- आपके घर की प्रत्येक मंजिल पर आग के खतरे की घण्टी होनी चाहिए।
- केवल ऑस्ट्रेलिया के अनुमोदित स्तर #3786 की आग के खतरे की घण्टी लगी होनी चाहिए।
- कड़े तारों वाली आग के खतरे की घण्टी, किसी मान्यता प्राप्त बिजली वाले द्वारा ही लगाई जानी चाहिए।
- आग के खतरे की घण्टी, निर्माता के निर्देशको के अनुसार ही लगाई जानी चाहिए।
- आग के खतरे की घण्टी की जाँच समय-समय पर तथा महीने में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।
- प्रत्येक आग के खतरे की घण्टी में, बैटरी साल में कम से कम एक बार अवश्य बदलनी चाहिए।
- आग के खतरे की घण्टी को बतायें गये समयानुसार बदल देना चाहिए क्योंकि यह अधिक समय तक नहीं चलती हैं।
- आग के खतरे की घण्टी की कार्यशीलता बनाये रखने के लिए उसे नियमित तौर पर साफ करना चाहिए।
- अगर आपके बच्चे हैं, तो जो आग के खतरे की अनेक घण्टियाँ आपस में एक दुसरे के साथ बजने लगती हैं का प्रयोग करने का विचार करना चाहिए।

अपने घर को आग से सुरक्षित करने के लिए आपको अन्य क्या करना चाहिए?

- अगर आग के खतरे की घण्टी काम न करें तो किस चीज़ से आपको आग का पता चलेगा, की विचार योजना कर लेनी चाहिए।
- अपने घर के लोगों के साथ आग से बचाव की 'लिखित बचाव योजना' बनायें व उसका नियमित अभ्यास करें।
- हो सकता है कि गहरी नींद में सोने वाले लोग जैसे कि बच्चे या अन्य शराब या नशे से प्रभावित लोग खतरे की घण्टी की आवाज़ सुनकर जल्दी नींद से न जागें। अपनी सुरक्षा योजना में इनकी व्यवस्था का ध्यान रखें।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियंत्रण केन्द्र से सम्पर्क करें
अथवा देखें: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au

आग के खतरे की घण्टी - सुरक्षा संकेत

- याद रखें कि आग के धुएँ से आप भ्रमित हो जायेंगे तथा आप धुएँ में देख नहीं सकेंगे।
- अगर आपने आग से बचने के लिए घर खाली (evacuate) कर दिया है तो बाहर ही रहें तथा 000 पर फोन मिलायें।
- बच्चों को आग से बचने के लिए बनाई योजना का पूर्ण अभ्यास करवा कर ही आग से बचाव की ड्रिल करें।
- अगर घर में किसी को कम सुनाई देता हो या चलने फिरने में दिक्कत आती हो तो इस बात को ध्यान में रखिये और अगर आवश्यकता हो तो किसी एक व्यक्ति को उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर दीजिए।
- घर से आग की सुरक्षा पूरे परिवार के लिए आवश्यक है तथा तैयारी द्वारा दुर्घटना होने से बचा जा सकता है।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फोन कीजिए